


## अमेरिकी शटडाउन



# अत्यावश्यक 50 विषय

# प्रीलिम्स 2019 के लिए

क्यों अत्यावश्यक  
विषय श्रृंखला  
महत्वपूर्ण है?

2017 के प्रीलिम्स में, 50 अत्यावश्यक  
विषय श्रृंखला में 9 प्रश्न शामिल थे।

2018 की प्रारंभिक परीक्षा में, 40 अत्यावश्यक  
विषय श्रृंखला में 8 प्रश्न शामिल थे।

2019 के प्रीलिम्स में, .....



Telegram पर अध्ययन सामग्री  
प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल

@UpscPrepMate से जुड़ें

जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें



पुस्तकें खरीदने के लिए



पर क्लिक करें



Whatsapp पर अध्ययन सामग्री प्राप्त  
करने के लिए, अपना नाम और  
शहर Whatsapp नंबर पर भेजें

**75978-40000**

## अमेरिकी शटडाउन (American Shutdown)

### अमेरिकी सरकार शटडाउन (अमेरिकी शटडाउन) क्या है?

अमेरिका में सरकारी शटडाउन एक ऐसी स्थिति होती है जब धन की कमी के कारण गैर-आवश्यक ऐच्छक संघीय सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस (अमेरिकी विधानमंडल) उपयुक्त धन नहीं प्रदान करती और राष्ट्रपति द्वारा की गई मांगों से सहमत नहीं होने पर यह स्थिति पैदा होती है।

इसे आंशिक शटडाउन (Partial Shutdown) कहा जाता है क्योंकि संघीय सरकार द्वारा दी गई केवल गैर-आवश्यक संघीय सेवाएं रोक दी जाती हैं और सभी सेवाएं नहीं।

आमतौर पर, कांग्रेस आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 30 सितंबर तक धनराशि प्रस्तावित करती है। ऐसा ना होने की स्थिति में कांग्रेस एक सतत वित्त पोषण प्रस्ताव (Continuing Funding Resolution) पारित करती है। इस प्रस्ताव के पारित ना होने पर शटडाउन की स्थिति पैदा होती है।

### हाल ही में शटडाउन क्यों हुआ?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी-मेक्सिको सीमा पर एक दीवार बनाने के लिए कांग्रेस से \$ 5.7 बिलियन विनियोग की मांग की। अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं- रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। राष्ट्रपति ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी के हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य विपक्ष का गठन करते हैं।

अमेरिकी कांग्रेस में, डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य सीमा सुरक्षा के तहत \$ 1.6 बिलियन के पैकेज के लिए सहमत हुए, बशर्ते कि दीवार बनाने के लिए धन का उपयोग न किया जाए। दूसरी ओर, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किए गए किसी भी बिल को वीटो (Veto) करेंगे, जो विभिन्न संघीय सरकारी विभागों के लिए धन का विनियोजन करता है, तथा जो कि दीवार निर्माण के लिए भी प्रदान नहीं करता है।

प्रतिनिधि सभा {House of Representatives (अमेरिकी विधायिका का निचला सदन)} ने सरकार के खर्च के लिए और दीवार बनाने के लिए 5.7 बिलियन डॉलर के साथ विनियोग विधेयक को पारित कर दिया है। हालांकि, डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों के विरोध के कारण सीनेट

{Senate (अमेरिकी विधायिका का ऊपरी सदन)} में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। नतीजतन, शटडाउन हुआ।

### हाल ही में शटडाउन

हाल ही में शटडाउन (बंद) 21 दिसंबर, 2018 को शुरू हुआ और 25 जनवरी, 2019 को समाप्त हुआ। यह 35 दिनों तक चला। यह तब समाप्त हुआ जब राष्ट्रपति ट्रम्प और कांग्रेस के सदस्य एक समझौते पर आए और राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बिल पर हस्ताक्षर किए जिसमें सरकारी सेवाओं को तीन सप्ताह के लिए वित्त पोषित किया गया। इसके बाद में, सरकारी सेवाओं को विस्तारित अवधि के लिए धन प्रदान किया गया।

हालांकि शटडाउन समाप्त हो गया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प ने यूएस-मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की कसम खाई है।

### शटडाउन का प्रभाव

लगभग 420,000 कर्मचारी जो सरकारी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण थे, बिना वेतन के काम करते रहे। 380,000 कर्मचारी, जो सरकारी कामकाज के लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं थे, उन्हें बिना वेतन के घर भेज दिया गया। बाद में, एक बार शटडाउन समाप्त होने पर, कांग्रेस ने कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए एक विधेयक पारित किया।

शटडाउन से आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। यह अनुमान है कि शटडाउन से अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद को \$ 11 बिलियन का घाटा हुआ।